



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 63]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 7, 2005/फाल्गुन 16, 1926

No. 63]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 7, 2005/PHALGUNA 16, 1926

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

( वाणिज्य विभाग )

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2005

संख्या 58 ( आर ई-2004 )/2004—2009

फा. सं. 01/91/180/975/एएम 05/पी सी 3.—विदेश व्यापार नीति, 1 सितम्बर, 2004—31 मार्च, 2009, के पैरा 2.1, 2.4 और 2.29 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना सं. 28, दिनांक 07-03-2005 द्वारा "निर्यात और आयात मर्दों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण" 1 सितम्बर, 2004—31 मार्च, 2009 (समय-समय पर यथा संशोधित) नामक पुस्तक की अनुसूची 2 की तालिका ख के अध्याय 5 की क्रम सं. 39 एवं 40 के कॉलम 5 में निर्धारित शर्तों की छूट के फलस्वरूप महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्वारा चीतल और साँभर की खालों की छीलन से कानूनी तौर पर संसाधित स्टॉक और चीतल और साँभर की खालों की छीलन से विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित करते हैं :

- (i) सम्भावित निर्यातक इस सार्वजनिक सूचना के जारी किए जाने की तारीख से तीस दिन (30 दिन) के भीतर प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1), 2004-2009 के परिशिष्ट 16 और परिशिष्ट 2 के अनुसार अपना आवेदन, महानिदेशक, विदेश व्यापार (मुख्यालय), उद्योग भवन, नई दिल्ली को प्रस्तुत करें।
- (ii) आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न होने चाहिए :-

(क) विदेशी क्रेता से वैध निर्यात आदेश/अपरिवर्तनीय साख-पत्र की एक प्रति।

- (ख) संबंधित मुख्य वन्य जीवन वार्डन द्वारा उनके नाम से जारी विधिक प्राप्ति प्रमाण-पत्र, जिसमें खालों की छीलन/विनिर्मित वस्तुओं के कानूनी रूप से प्राप्त स्टॉक की मात्रा और यूनिट मूल्य दर्शाया गया हो ।
- (ग) आयात निर्यात कोड और आर सी एम सी की स्वतः प्रमाणित प्रतियाँ।
- (iii) संबंधित दस्तावेजों सहित प्रत्येक निर्यात खेप, क्षेत्रीय उप-निदेशक, वन्य जीव संरक्षण द्वारा पोत लदान से पूर्व निरीक्षण और जाँच की शर्तों के अधीन होगा,
- (iv) एक मुश्त छूट अधिसूचना सं० .....<sup>28,</sup> दिनांक 07-03-2005 जारी होने की तिथि से 6 माह के लिए लागू होगी और इस अवधि की समाप्ति के बाद, निर्यातक पोतलदान न की गयी मात्रा को संबंधित राज्य के मुख्य वन्य जीव अध्यक्ष को वापिस करेगा ।
- (v) 6 महीने की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद उक्त मदों के निर्यात की अनुमति नहीं है ।
2. उक्त मदों के निर्यात हेतु निर्यात लाइसेंस जारी करने के लिए निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त आवेदन पर निर्यात सुविधा समिति द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा और इस तरह लगाई गई किसी अन्य शर्त के अधीन होगा ।
3. इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

के. टी. चाको, महानिदेशक, विदेश व्यापार

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

### PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 7th March, 2005

No. 58 (RE-2004)/2004—2009

F. No. 01/91/180/975/AM 05/PC III.—In exercise of the powers conferred under paragraphs 2.1, 2.4 and 2.29 of the Foreign Trade Policy 1st September, 2004—31st March, 2009 and consequent to relaxation of conditions stipulated in Col. 5 against S. No. 39 & 40 of Chapter 5 in Table B of Schedule 2 of Book Titled 'ITC (HS) Classifications of Export and Import Items', 1st September, 2004—31st March, 2009 (as amended from time to time) vide Notification No. 28, dated 07-03-05, the Director General of Foreign Trade hereby prescribes the following procedures

to be followed for export of legally processed stock of Shavings of Shed Antlers of Chital and Sambhar and Manufactured Articles of Shavings of Shed Antlers of Chital and Sambhar :—

- (i) Prospective exporters shall submit their application as per Appendix 16 and Appendix 2 of the Handbook of Procedures (Vol. I), 2004-2009 within thirty days (30 days) from the date of issue of this Public Notice to the DGFT (Headquarters Office), Udyog Bhavan, New Delhi.
- (ii) The application shall be accompanied by the following documents:-
  - (a) A copy of the valid export order/irrevocable Letter of Credit from the foreign buyer;
  - (b) Legal Procurement Certificate(s) in their name issued by the concerned Chief Wildlife Warden showing the quantity and unit price of legally acquired stock of Manufactured Articles/Shavings of Shed Antlers;
  - (c) Self attested copies of I.E. Code and RCMC.
- (iii) Each export consignment alongwith the related documents will be subject to pre-shipment inspection and verification by the Regional Dy. Director, Wildlife Preservation;
- (iv) One time exemption will be applicable for a period of 6 months from the date of issue of Notification No. 28, dated 07-03-2005 and the exporter shall surrender the unshipped quantity to the Chief Wildlife Wardens of the respective State after expiry of this period.
- (v) No export shall be allowed of the said items on expiry of the said period of six months.

2. Application received within the stipulated period would be considered by the Export Facilitation Committee on merit for issue of Export Licences for export of said items and shall be subject to any other condition, so imposed.

3. This issues in the Public interest.

K. T. CHACKO, Director General of Foreign Trade